

भारत का साइबर पारस्थितिकी तंत्र

यह एडिटरियल 03/09/2022 को 'द दृष्टि' में प्रकाशित "India's Cyber Infrastructure Needs More Than Patches" लेख पर आधारित है। इसमें भारत के साइबर पारस्थितिकी और देश के साइबर अवसंरचना में वदियमान अंतराल के बारे में चर्चा की गई है।

यदि मनुष्यों के पूर्वज सदियों की लंबी नींद के बाद आज जागें तो वे समकालीन समय की क्रांतिकारी बदलावों और डिजिटलीकृत दुनिया को देखकर चकित रह जाएंगे।

डिजिटलीकरण के आगमन ने मानव जीवन के हर पहलू को व्यापक स्तर तक प्रभावित किया है। हालाँकि **सूचना प्रौद्योगिकी** का उपयोग दोधारी तलवार भी सदिध हो रहा है क्योंकि **साइबर अपराध** और इससे संबद्ध खतरे नाटकीय रूप से बढ़ गए हैं।

जैसे-जैसे भारत विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ता जा रहा है, साइबरस्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चिंता का विषय भी बनता जा रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 में भारत में साइबर अपराध के 52,974 मामले दर्ज किये गए, जो वर्ष 2020 (50,035 मामले) की तुलना में से 5 प्रतिशत से अधिक और वर्ष 2019 (44,735 मामले) की तुलना में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दर्शाते हैं।

यद्यपि भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये कई कदम उठाए हैं, जसमें सभी प्रकार के साइबर अपराध से निपटने के लिये गृह मंत्रालय के तहत **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र** (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C) की स्थापना करना भी शामिल है, लेकिन अवसंरचनागत कमियों को दूर करने के लिये अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

साइबर सुरक्षा (Cyber Security)

- साइबर सुरक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा कंप्यूटर, नेटवर्क, प्रोग्राम और डेटा को अनधिकृत पहुँच या हमलों से बचाने की तकनीकें हैं जो साइबर-भौतिक प्रणालियों (Cyber-Physical Systems) और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना के दोहन पर लक्षित हैं।
 - साइबर-भौतिक प्रणालियाँ भौतिक वस्तुओं और बुनियादी ढाँचे में संवेदन (Sensing), संगणना (Computation), नियंत्रण (Control) और नेटवर्किंग को एकीकृत करती हैं तथा उन्हें इंटरनेट से और परस्पर जोड़ती हैं।
 - **उदाहरण:** औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, जल प्रणाली, रोबोटिक्स प्रणाली, स्मार्ट ग्रिड आदि।
 - महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (**Critical Information Infrastructure**): **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008** महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को एक कंप्यूटर संसाधन के रूप में परिभाषित करता है, जसकी अक्षमता या वनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर कारी प्रभाव पड़ेगा।
- साइबर खतरे:
 - मैलवेयर, वायरस, ट्रोजन, स्पाइवेयर, बैंकडोर आदि जो रमिटेड एक्सेस की अनुमति देते हैं।
 - 'डिस्ट्रिब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस' (DDoS), जो सर्वर एवं नेटवर्क पर फ्लडिंग (Flooding) की स्थिति उत्पन्न करता और उन्हें अनुपयोगी बना देता है।
 - 'डोमेन नेमड सिस्टम पॉइजनिंग अटैक' (DNS Poisoning Attacks) जो DNS को भेद्य बनाता और वेबसाइटों को धोखापूर्ण साइटों की ओर रीडायरेक्ट करता है।
- साइबर सुरक्षा के दायरे में शामिल प्रमुख क्षेत्र:
 - **ऐप्लीकेशन सुरक्षा (Application Security):** ऐप को उन खतरों से बचाने के लिये जो ऐप्लीकेशन डिज़ाइन में मौजूद खामियों के माध्यम से सामने आ सकते हैं।
 - **सूचना सुरक्षा (Information Security):** अनधिकृत पहुँच से सूचना की रक्षा के लिये ताकतपिहचान की चोरी को टाला जा सके और नजिता की रक्षा हो सके।
 - **'डिज़ास्टर रिकवरी' (Disaster Recovery):** यह ऐसी प्रक्रिया है जसमें साइबर आपदा के मामले में जोखिम मूल्यांकन, प्राथमिकताएँ तय करना, रिकवरी रणनीति विकसित करना आदि शामिल हैं।
 - **नेटवर्क सुरक्षा (Network Security):** इसमें नेटवर्क की उपयोगिता, विश्वसनीयता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिये की जाने वाली गतिविधियाँ शामिल हैं।

- प्रभावी नेटवर्क सुरक्षा विभिन्न प्रकार के खतरों को लक्ष्य करती है और नेटवर्क में उनके प्रवेश या प्रसार को रोकती है।

साइबर-क्राइम, साइबर-टेररिज्म और साइबर-वार

- **साइबर-क्राइम (Cyber-Crime):** साइबर-क्राइम ऐसे गैरकानूनी कृत्य हैं जसिमें कंप्यूटर एक साधन के रूप में या लक्ष्य के रूप में या दोनों ही रूप में उपस्थिति होता है।
 - साइबर-क्राइम या साइबर अपराधों में ऐसी आपराधिक गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं जो पारंपरिक प्रकृतिकी हैं, जैसे चोरी, धोखाधड़ी, जालसाजी, मानहानि, अनपि्ट या शरारत आदि।
- **साइबर-वार (Cyber-War):** साइबर-वार या साइबर युद्ध किसी राष्ट्र राज्य द्वारा वदिशी राष्ट्रों के वरिद्ध साइबर स्पेस में अभियानों के संचालन हेतु एक संगठित प्रयास है।
 - इसमें खुफिया जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से इंटरनेट का उपयोग शामिल है।
- **साइबर-टेररिज्म (Cyber-Terrorism):** साइबर-टेररिज्म या साइबर आतंकवाद साइबर स्पेस और आतंकवाद का अभिसरण है।
 - यह गैर-कानूनी हमलों, कंप्यूटर नेटवर्क और उसमें संग्रहीत सूचना के वरिद्ध हमलों की धमकी को संदर्भित करता है, जब ऐसा राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये सरकार या देश के लोगों को डराने या वविश करने के लिये किया जाता है।

भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियाँ

- **लाभ-उन्मुख अवसरचना की मानसिकता:** उदारीकरण के बाद से सूचना प्रौद्योगिकी (IT), बजिली और दूरसंचार क्षेत्र में नजि क्षेत्र द्वारा वृहत नविश किया गया है। लेकिन साइबर हमले से बचाव हेतु तैयारी और नयामक ढाँचे में सुधार पर उनका अपर्याप्त ध्यान रहा है जो चिता का कारण है।
 - सभी ऑपरेटर लाभ पर अधिक केंद्रित हैं और अवसरचना में नविश नहीं करना चाहते क्योंकि वहाँ उनके लिये लाभ के अवसर नहीं हैं।
- **पृथक प्रकर्यात्मक संहिता का अभाव:** साइबर या कंप्यूटर संबंधी अपराधों की जाँच के लिये कोई पृथक प्रकर्यात्मक संहिता मौजूद नहीं है।
- **साइबर हमलों की अंतरराष्ट्रीय (ट्रांस-नेशनल) प्रकृति:** अधिकांश साइबर अपराध प्रकृति में ट्रांस-नेशनल होते हैं। वदिशी क्षेत्रों से साक्ष्य एकत्र करना न केवल एक कठिन बलक एक धीमी प्रकर्या भी है।
- **डजिटल पारतित्तर का वसितार:** पछिले कुछ वर्षों से भारत अपने विभिन्न आर्थिक घटकों के डजिटलीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ा है और सफलतापूर्वक अपने लिये एक जगह बनाई है।
 - 5G और **इंटरनेट ऑफ थिंग्स** जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकियाँ इंटरनेट से जुड़े पारतित्तर के कवरेज में वृद्धिकरेंगी।
 - डजिटलीकरण के आगमन के साथ उपभोक्ता एवं नागरिक डेटा को डजिटल प्रारूप में संग्रहीत किया जाएगा और लेनदेन ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगा, जो भारत को हैकरस और साइबर अपराधियों के लिये एक सक्षम बरीडगि गराउंड बना सकता है।
- **सीमित वशिषज्जता और प्राधिकार:** क्रपिटोकरेंसी से संबंधित अपराधों की कम रपिर्टगि की जाती है क्योंकि ऐसे अपराधों को हल करने की क्षमता सीमित रहती है।
 - यद्यपि अधिकांश राज्यस्तरीय साइबर लैब हार्ड डसिक् और मोबाइल फोन का वशिषेण करने में सक्षम हैं, फरि भी उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 'इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक' (Examiners of Electronic Evidence) के रूप में मान्यता दया जाना अभी शेष है। जब तक उन्हें मान्यता प्राप्त नहीं होगी, वे इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर वशिषज्ज राय नहीं दे सकते।

भारत में साइबर सुरक्षा के लिये वर्तमान उपबंध

- **भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (Indian National Security Council):** साइबर नीति से संबंधित पारतित्तर को आकार देने के लिये।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति (National Cyber Security Strategy):** सभी डजिटलीकरण पहलों में डजिाइन के प्रारंभिक चरण में सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिये।
- **कंप्यूटर इमरजेंसी रसिपांस टीम (Computer Emergency Response Team- CERT-In):** साइबर सुरक्षा उल्लंघनों और अन्य मुद्दों के संबंध में सतर्कता/चेतावनी के लिये।
- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (Indian Cyber Crime Coordination Centre- I4C):** साइबर अपराध से संबंधित कई मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से संभालने के लिये।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** भारत में बॉटनेट संक्रमणों का पता लगाकर एक सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करने के लिये।

साइबर खतरों की आधुनिक समस्याओं के लिये आधुनिक समाधान

- **सुरक्षित साइबरस्पेस के लिये केंद्र-राज्य सहयोग:** चूँकि पुलसि और लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल है, अपराध की जाँच करने और आवश्यक साइबर अवसरचना का निर्माण करने का प्राथमिक दायित्व राज्यों पर है।
 - लेकिन इसके साथ ही चूँकि आईटी अधिनियम और अन्य प्रमुख कानून केंद्रीय अधिनियम हैं, केंद्र सरकार को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिये सार्वभौमिक वैधानिक प्रकर्याओं के विकास के लिये आगे बढ़ना चाहिये।
 - केंद्र और राज्यों को साइबर अपराध की जाँच की सुविधा के लिये न केवल मलिकर काम करना चाहिये और वैधानिक दशानरिदेश तैयार करना चाहिये, बलक बहुपतीकषति और आवश्यक साइबर अवसरचना के विकास के लिये पर्याप्त धन भी प्रदान करना चाहिये।
- **साइबर प्रयोगशालाओं का उन्नयन:** नई प्रौद्योगिकियों के आगमन के साथ साइबर फोरेंसिक प्रयोगशालाओं का उन्नयन किया जाना चाहिये।

- राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक लैब (National Cyber Forensic Lab) और दिल्ली पुलिस की 'साइबर रोकथाम, जागरूकता और जाँच केंद्र' (Cyber Prevention, Awareness and Detection Centre- CYPAD) इस दशा में एक अच्छा कदम है ।
- **क्षमता निर्माण:** साइबर अपराध से निपटने के लिये पर्याप्त क्षमता का निर्माण करना आवश्यक है । इसके लिये या तो प्रत्येक ज़िले या रेंज में एक अलग साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करना होगा या मौजूदा प्रत्येक पुलिस स्टेशन में तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी ।
- **न्याय वितरण प्रणाली में सुधार:** चूँकि निजिता उल्लंघन के मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पारंपरिक अपराधों के साक्ष्य से बहुत भिन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिये मानक और समान प्रक्रियाएँ विकसित करना आवश्यक है ताकि समयबद्ध न्याय सुनिश्चित हो । यह नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ अवसंरचना को बनाए रखने के लिये आवश्यक है ।
- **साइबर रक्षा तंत्र विकसित करना:** साइबर संघर्ष से निपटने के लिये एक समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, चाहे वह साइबर सर्च अभियान के संबंध में हो या साइबर हमलों के वरिद्ध जवाबी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के संबंध में हो ।
 - साइबर रक्षा एवं युद्ध पर एक स्पष्ट सार्वजनिक रुख नागरिकों के विश्वास को बढ़ाती है और इस प्रकार एक अधिक आकर्षक, स्थिर और सुरक्षित साइबर पारितंत्र को संकल्पित बनाती है ।

अभ्यास प्रश्न: जैसे-जैसे भारत डिजिटलीकृत पारितंत्र की ओर बढ़ रहा है, साइबरस्पेस राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक गंभीर चिंता का विषय भी बनता जा रहा है । टपिपणी कीजिये ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-s-cyber-ecosystem>

